

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2024—पौष 15, शक 1945

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.